

**बिजनौर: नकली नोटों से मूर्ति खरीदने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार एक फरार**



**बिजनौर, अमृत विचार।** मंडावर पुलिस ने नकली नोटों से सोने की मूर्ति खरीदने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों से भगवान महावीर की नकली सोने की मूर्ति, 1400 रुपये असली व 15,81,650 रुपये के नकली नोट तथा कार बरामद हुई है।

सोमवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में ठगी का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि मंडावर पुलिस रविवार शाम चेकिंग कर रही थी कि मालन नदी के पुल के पास कार व बाइक पर सवार व्यक्ति भगवान महावीर की सोने की मूर्ति का सौदा कर रहे थे।

पुलिस टीम को आता देख बाइक सवार व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी वसीम अहमद पुत्र अब्दुल वहीद, नाजिम पुत्र महबूब, युनूस पुत्र युसूफ निवासी ग्राम किथोडा थाना किरतपुर व युनूस पुत्र रमजानी निवासी ग्राम जहागीरवाला थाना किरतपुर को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी लेने पर इनके पास भगवान महावीर की नकली सोने की मूर्ति , 1400 की असली करंसी व 15,81,650 रुपये के नकली नोट बरामद हुए। इस संबंध में थाना मंडावर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। फरार आरोपी अख्तर पुत्र अब्दुल माजिद निवासी ग्राम जनदरपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है।

आरोपी वसीम ने पूछताछ में बताया कि अख्तर ने भगवान महावीर की नकली सोने की मूर्ति को असली बताकर सस्ते दाम में बेचने को कहा। वसीम ने उसी गांव के नाजिम पुत्र महबूब , यूनुस पुत्र यूसुफ व युनूस पुत्र रमजानी को मूर्ति खरीदने के लिए तैयार किया।

पुलिस ने नाजिम व यूनुस पुत्र यूसुफ व युनूस पुत्र रमजानी से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उन सभी ने नकली नोटों की गड्डियां तैयार कर उनके ऊपर कुछ असली नोट लगा दिए थे ,ताकि मूर्ति खरीदकर उन्हें नकली नोट देकर फरार जाते। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शातिर ठग है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर तथा अन्य कार्रवाई की जाएगी।

Source: <https://www.amritvichar.com/article/323299/gang-busted-for-buying-idols-with-fake-notes-four-arrested#gsc.tab=0>